



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 2020

कार्तिक 21, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/761-2020-4/93(मैनपुरी)-2014

लखनऊ, 12 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-323

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद मैनपुरी की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/174-2015-4/93(मैनपुरी)/2014, दिनांक 22 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड बरनाहल की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

## जनपद का नाम—मैनपुरी

## सारिणी

क्र०सं०	पूर्व की स्थिति			क्र०सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरनाहल	वरनाहल	1-वरनाहल 2-औरंगाबाद		वरनाहल	उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 के अधिसूचना संख्या 2387/9-1-2019-03 टी0ए0/17, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 द्वारा नवगठित नगर पंचायत वरनाहल में सम्मिलित।	
2		अढ़ूपुर	अढ़ूपुर	1		अढ़ूपुर	अढ़ूपुर
3		सुनूपुर	सुनूपुर	2		सुनूपुर	सुनूपुर
4		कठौली	1-कठौली 2-मोहनपुर	3		कठौली	1-कठौली 2-मोहनपुर
5		रसूलपुर	रसूलपुर	4		रसूलपुर	रसूलपुर
6		जैतपुर	1-जैतपुर 2-गोलियापुर	5		जैतपुर	1-जैतपुर 2-गोलियापुर
7		निवहरा	निवहरा			उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 के अधिसूचना संख्या 2387/9-1-2019-03 टी0ए0/17, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 द्वारा नवगठित नगर पंचायत वरनाहल में सम्मिलित।	
8		सरायमुगलपुर	1-सरायमुगलपुर 2-हकीमपुर	6		सराय मुगलपुर	सरायमुगलपुर
9		हाजीपुरनेरा	हाजीपुरनेरा	7		हाजीपुरनेरा	हाजीपुरनेरा
10		अब्दुलनवीपुर	अब्दुलनवीपुर	8		अब्दुलनवीपुर	अब्दुलनवीपुर
11		मढामई	मढामई			उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 के अधिसूचना संख्या 2387/9-1-2019-03 टी0ए0/17, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 द्वारा नवगठित नगर पंचायत वरनाहल में सम्मिलित।	
12		कनिकपुर खिजरपुर	कनिकपुरखिजरपुर	9		कनिकपुर खिजरपुर	कनिकपुर खिजरपुर
13		बलपुरा	बलपुरा 1-बीनेपुर 2-कारुखेडा	10		बलपुरा	बलपुरा 1-बीनेपुर 2-कारुखेडा
14		बीनेपुर	3-स्माइलपुर 4-पहाड़पुर 5-रहमतुल्लापुर	11		बीनेपुर	3-स्माइलपुर 4-पहाड़पुर 5-रहमतुल्लापुर
15		सजावारपुर	सजावारपुर	12		सजावारपुर	सजावारपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
16		दिहुली	दिहुली	13		दिहुली	दिहुली
17		अहमदपुर	1-अहमदपुर 2-आजमपुर	14		अहमदपुर	1-अहमदपुर 2-आजमपुर
18		कैलाशपुर	कैलाशपुर	15		कैलाशपुर	कैलाशपुर
19		खेडमहान	खेडामहान	16		खेडा महान	खेडामहान
20		तिरकारा दौलतपुर	1-तिरकारा दौलतपुर 2-न0 साहब	17		तिरकारा दौलतपुर	1-तिलकारादौलतपुर 2-न0 साहब
21		विरथुआ	1-विरथुआ 2-गढिया आलमगीरपुर	18		विरथुआ	1-विरथुआ 2-गढिया आलमगीरपुर
22		मुहब्बतपुर लभौआ	मुहब्बतपुर लभौआ	19		मुहब्बतपुर लभौआ	मुहब्बतपुर लभौआ
23		सैयदपुरकेहरी	1-सैयदपुरकेहरी 2-सैयदपुर प्रान 3-शहजादपुर 4-शाहजहाँपुर	20		सैयदपुरकेहरी	1-सैयदपुरकेहरी 2-सैयपुर प्रान 3-शहजादपुर 4-शाहजहाँपुर
24		हाजीपुरसेमरी	हाजीपुरसेमरी	21		हाजीपुरसेमरी	हाजीपुरसेमरी
25		इकहरा	इकहरा	22		इकहरा	इकहरा
26		कनिकपुर सादा	1-कनिकपुर सादा 2-खैरन्देश नगर	23		कनिकपुर सादा	1-कनिकपुर सादा 2-खैरन्देश नगर
27		सोडरा	सोडरा	24		सोडरा	सोडरा
28		कसौली	कसौली	25		कसौली	कसौली
29		प्रहलादपुर	प्रहलादपुर	26		प्रहलादपुर	प्रहलादपुर
30		बनिगर्वी	बनिगर्वी	27		बनिगर्वी	बनिगर्वी
31		लाखनमऊ	लाखनमऊ	28		लाखनमऊ	लाखनमऊ
32		बमटापुर	बमटापुर	29		बामटापुर	बमटापुर
33		उरथान	उरथान	30		उरथान	उरथान
34		नवाटेडा	नवाटेडा	31		नवाटेडा	नवाटेडा
35		निटावली	निटावली	32		निटावली	निटावली
36		भगवतीपुर	1-भगवतीपुर 2-अगरापुर	33		भगवतीपुर	1-भगवतीपुर 2-अगरापुर
37		रेढापुर	1-रेढापुर 2-लौंगपुर	34		रेढापुर	1-रेढापुर 2-लौंगपुर
38		साजहाजीपुर	साजहाजीपुर	35		साजहाजीपुर	साजहाजीपुर
39		मीठेपुर	मीठेपुर	36		मीठेपुर	मीठेपुर
40		कुम्हेरी	1-कुम्हेरी 2-असपुरा	37		कुम्हेरी	1-कुम्हेरी 2-असपुरा
41		गोटपुर	1-गोटपुर 2-गोंदई	38		गोटपुर	1-गोटपुर 2-गोंदई
42		नौरमई	1-नौरमई 2-खरौआ	39		नौरमई	1-नौरमई 2-खरौआ
43		भिडौरा	भिडौरा	40		भिडौरा	भिडौरा
44		गडियाजैनपुर	1-गडिया जैनपुर 2-शुकरूलापुर	41		गडियाजैनपुर	1-गडिया जैनपुर 2-शुकरूलापुर
45		चन्दीकरा	चन्दीकरा	42		चन्दीकरा	चन्दीकरा
46		केशोपुर	केशोपुर	43		केशोपुर	केशोपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
47		डालूपुर	1-डालूपुर 2-न0 भाई खॉ 3-बहसी	44		डालूपुर	1-डालूपुर 2-न0 भाई खॉ 3-बहसी
48		न0 मान्धाता	न0 मान्धाता	45		न0 मान्धाता	न0 मान्धाता
49		आलमपुर देहा	आलमपुर देहा	46		आलमपुर देहा	आलमपुर देहा
50		फूलापुर	फूलापुर	47		फूलापुर	फूलापुर
51		मुगलपुर	1-मुगलपुर 2-धर्मपुर	48		मुगलपुर	1-मुगलपुर 2-धर्मपुर
52		खुशालपुर	खुशालपुर	49		खुशालपुर	खुशालपुर
53		सोथरा	सोथरा	50		सोथरा	सोथरा
54		एमाहसननगर	एमाहसननगर	51		एमाहसननगर	एमाहसननगर
55		पैरारशाहपुर	पैरारशाहपुर	52		पैरारशाहपुर	पैरारशाहपुर
56		गोपियापुर	1-गोपियापुर 2-तुलसीपुर	53		गोपियापुर	1-गोपियापुर 2-तुलसीपुर
57		ढकपुरा	1-ढकपुरा 2-कलन्दरपुर	54		ढकपुरा	1-ढकपुरा 2-कलन्दरपुर
58		भूरेपुर	1-भूरेपुर 2-परशुरामपुर	55		भूरेपुर	1-भूरेपुर 2-परशुरामपुर
59		मांसरपुर	मांसरपुर	56		मांसरपुर	मांसरपुर
60		ऋगानसी पुर	1-ऋगानसीरपुर 2-दरियापुर	57		ऋगानसीरपुर	1-ऋगानसीरपुर 2-दरियापुर
61		जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर	58		जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/174/2015-4/93(मैनपुरी)/2014, दिनांक 22 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
किंजल सिंह,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ0 प्र0।

